

15th August, 2024

To,
The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400 051

<u>Subject</u>: <u>Disclosure regarding publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2024 in Newspapers</u>

Dear Sir/ Ma'am,

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper clippings of un-audited financial results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2024, published in 'Financial Express' (English Newspaper) and 'Indore Samachar' (Hindi Newspaper) on 15th August, 2024 pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for the information of the Exchange and members thereof. Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Shanti Overseas (India) Limited

Ramita Otwani Company Secretary

T: +91-731-4020586, +91-731-4020587

E: mail@shantioverseas.com
W: www.shantioverseas.com

Quarter

Quarter

ended ended

CRESCENT FINSTOCK LIMITED

CIN: L51100GJ1997PLC032464

Regd. Office: Regd Office: A/12, Snehkunj CHS, Resi Plot No 374, Koparli Road, G. I. D. C. Vapi - 396195, Gujarat Phone No.: 022 -6188 7600; Email id: crescentfinstock@yahoo.com website: www.crescentfinstock.com

Financial Results for Quarter ended 30th June 2024 Rs. in Lacs (Except EPS)

		Stand	dalone			Consc	olidated	
Particulars	Quarter ended Unaudited 30.06.2024	Quarter ended Audited 31.03.2024	Quarter ended Unaudited 30.06.2023	Year ended Audited 31.03.2024	Quarter ended Unaudited 30.06.2024		Quarter ended Unaudited 30.06.2023	Year ended Audited 31.03.2024
Total income from operations (net)	15.41	8,	4.76	11.82	214.35	887.33	578.66	2,159.54
Net Profit / (Loss) for the period (befor Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	(1.55)	(4.43)	(2.58)	(24.48)	80.81	173.32	(100.81)	817.03
Net Profit / (Loss) for the period (befor Tax, after Exceptional and Extraordinary Items)	(1.55)	(4.43)	(2.58)	(24.48)	80.81	173.32	(100.81)	817.00
Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Exceptional and Extraordinary Items)	(1.55)	(4.43)	(2.58)	(24.48)	80.81	(33.04)	(100.81)	610.67
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.16)	(3.12)	(2.58)	(22.27)	144.31	9.89	155.00	420.47
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- eatch)	783.85	783.85	722.35	783.85	783.85	783.85	722.35	783.85
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)		-	45	2,322.64	-		2	3,769.14
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised):								
(a) Basic	(0.02)	(0.06)	(0.04)	(0.31)	1.03	(0.42)	(1,40)	7.79
(b) Diluted	(0.02)	(0.06)	(0.04)	(0.31)	1.03	(0.42)	(1.40)	7.79

Regulations, 2015. The full format of the financial result is available on the website of MSEI (www.msei.in) and on the Company's website(www.crescentfinstock.com)

For Crescent Finstock Limited

Place: Mumbai Date: 14th August,2024

Mr Vidyadhar More Wholetime Director

FINQUEST

CIN: U74140MH2004PTC146715 Reg. Office: 602, Boston House, 6th Floor, Suren Road, Andheri (East), Mumbai - 400093

Email ID: hpatel@finquestonline.com, Website: www.finquestfinance.in Extracts of Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter June 30, 2024

Finguest Financial Solutions Private Limited

(Rs. in Lakhs except earning per share data)

Sr.		Fo	For the Year ended Standalone		
No.					
	HOLDHOLD CHANNELL	30th June, 2024 (Unaudited)	31st March, 2024 (Audited)	30th June, 2023 (Unaudited)	31st March, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	4,918	6,772	3,803	15,099
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	3,871	-578	5,140	14,924
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	2,679	371	3,495	11,728
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	2,679	371	3,495	11,728
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,679	371	3,495	11,728
6	Paid up Equity Share Capital	3,190	3,190	3,190	3,190
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	32,072	29,392	21,160	29,392
8	Securities Premium Account	(E) (#)		37	-
9	Net Worth	35,262	32,582	24,350	32,582
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	24,562	23,471	30,306	23,471
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	12		12	- 1
12	Debt Equity Ratio	0.70	0.72	1.24	0.72
13	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1, Basic:	8.40	1,16	10,96	36.76
	2. Diluted;	8.40	1.16	10.96	36.76
14	Capital Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15	Debenture Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

The above Audited financial results of the Company for the quarter and year ended June 30, 2024 and the Limited Review Report thereon of the Statutory Auditors of the Company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 14, 2024 and have been subjected to review by the statutory auditors. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under

Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE at www.bseindia.com and on the Company's website at www.finguestfinance.in. For the items referred in regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations


2015 the pertinent disclosure have been made to the BSE and can be accessed on the websites of BSE at www.bseindia.com and on the Company's website at www.finquestfinance.in

For Finquest Financial Solutions Private Limited

Hardik B. Patel

Date: 14-08-2024 Place : Mumbai

Managing Director & CEO DIN: 00590663



JNK India Limited

(Formerly known as JNK India Private Limited)

Registered Office: Unit No. 203, 204, 205 & 206, Opp. TMC Office, Centrum IT Park, Near Satkar Hotel, Thane -West, Thane - 400604, Maharashtra. CIN: L29268MH2010PLC204223, Website: www.jnkindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

0	B 45 4	17	TARBEST CARREST		INR in Million
Sr.	Particulars		Quarter ended		Year ended
No.		30th June, 2024	31st March, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024
		[Unaudited]	[Audited] [Refer note III]	[Unaudited]	[Audited]
1	Revenue from operations	879.94	2,268.48	367.16	4,802.41
2	Profit before exceptional items and tax	72.63	284.18	59.14	888.97
3	Profit before tax	72.63	284.18	59.14	888.97
4	Net profit after tax	63.75	166.49	39.21	626.49
5	Net profit after tax attributable to owners of the Company	63.75	166.49	39.21	626.49
6	Total comprehensive income attributable to owners of the Company	64.67	164.22	38.02	623,13
7	Paid-up equity share capital (Face value of share INR 2 each)	111.24	96.78	96.78	96.78
8	Other equity attributable to owners of the Company	4,810.45	1,856.84	1,156.91	1,856.84
9	Earning per share (EPS)	100	250	1 1000	93334
	Basic EPS (Rs.)	1,33	3.44	0.81	12.95
	Diluted EPS (Rs.)	1.32	3.42	0.80	12.86
		(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)

	(not dimidalisod)	(not annualised)	(Inv. dimidaliacu)
EXTRACT OF STATEMENT OF	F UNAUDITED STAI	NDALONE FINANC	CIAL RESULTS

Sr.	Particulars		Quarter ended					
No.		30th June, 2024	31st March, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024			
		[Unaudited]	[Audited] [Refer note III]	[Unaudited]	[Audited]			
1	Revenue from operations	879.09	2,237,48	366.75	4,771.00			
2	Profit before exceptional items and tax	74.46	278.28	49.55	879.35			
3	Profit before tax	74.46	278.28	49.55	879.35			
4	Net profit after tax	65.17	161.97	29.38	617.35			

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges. The quarterly financial results in the detailed format are available on the Company's website viz. www.inkindia.com and on the websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) II. The Group's main activity consists of Designing, Engineering, Procurement, Manufacture, Fabrication, Erection and
- Commissioning of fired heaters and related combustion engineering products. The Group has only one reportable segment and accordingly disclosures as per Ind AS 108 "Operating Segments" are not applicable. III. The figures for the quarter ended 31" March, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full
- financial year up to 31" March, 2024 and the audited figures for the nine months period ended 31" December, 2023. IV. Figures for the pervious periods have been regrouped/reclassified to conform to the classification of current periods.
- V. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on
- 13" August, 2024.

For JNK India Limited Arvind Kamath Place: Thane Chairperson & Whole Time Director Date: 13" August, 2024 DIN: 00656181

GANON PRODUCTS LIMITED

Formerly known as Ganon Trading and Finance Co. Limited) Office No. 304, 3rd Floor Khodal Chamber, R.B. Mehta Road, Ghatkopar East Mumbai City MH 400077 CIN NO: L51900MH1985PLC036708 Tel No: +91 9920216333, E-mail:ganonproducts@gmail.com/ ganontrading@gmail.com; Website: www.ganonproducts .com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024 Rs. In Lakhs

c.	(COO 2000) AN		Year Ended		
Sr. No.	Particulars	30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1	Total income from operations (net)	674.93	1,029.05	866.19	2,931.30
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.16	-24.23	-16,54	16.75
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.16	-24.23	-16.54	16.75
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.16	-28.23	-16.54	12.75
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit or (loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	2.16	-28.23	-16.54	12.75
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- per share)	933.1	933.10	933.10	933.10
7	Earnings per share(of Rs. 10/- each) (not annualised)				
- 1	(a) Basic	0.02	-0.30	-0.18	0.14
1 87	(b) Diluted	0.02	-0.30	-0.18	0.14

The above unudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 had been reviewed and recommended by the Audit Committee and the same had been approved and taken on record by the Board of Directors in their respective meetings held on 14th August 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the above financial results for the quarter ended June 30, 2024

- The Company has adopted Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder, with effect from April 01, 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with IND AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules,
- As the Company's business actually fall within a single primary business segment, the disclosure requirements of Ind-AS 108 in this regard are
- Comprative financial information of the previous guarter / nine months have been regrouped and reclassified wherever considered necessary to correspond to the figures of current quarter.
- The above results are also available on the Website of the Company i.e. www.ganonproducts.com and on website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

RAVINDRA HARIBHAU GOPALE Director DIN: 09436362

For and on behalf of the Board

SPRAYKING LIMITED (Previously Known as Sprayking Agro Equipment Limited) CIN: L29219GJ2005PLC045508

Registered office: Plot No. 4009 & 4010, GIDC, Phase III, Dared Jamnagar, Jamnagar, Gujarat, 361004 Contact No.: +919328377772, 9328427772 • Email: https://sprayking.co.in/ • Website: www.spraykingagro.com

Extract of the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended June 30, 2024

(Rs. In Lakhs)

		Quarter Ended					
٠.		Stan	dalone	Consolidated			
Sr. No.	Particulars	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2023		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)		
1	Total income from operations	2009.20	526.73	3581.08	1633.90		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	206.56	10.15	329.87	139.79		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	206.56	10.15	329.87	139.79		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	150.25	7.74	234.76	103.77		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	150.25	7.74	234.76	103.77		
6	Equity Share Capital	1056.79	1056.79	1056.79	1056.79		
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic :	0.28	0.12	0.44	1.64		
	2. Diluted:	0.28	0.12	0.44	1.64		

Place: Mumbai

Date : 14th Aug 2024

1) The unaudited standalone financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards 34 "Interim Financial Reporting" as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards Amendment Rules 2016. 2) The figures for the corresponding previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make

- them comparable. 3) The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results and its
- release at their respective meetings held on August 13, 2024.
- 4) The Company has single reportable business segment. Hence, no separate information for segment wise disclosure is given in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 108 - "Operating Segments".

For Sprayking Limited (Formerly known as Sprayking Agro Equipment Limited)

Director

Ronak Dudhagara

Place: Jamnagar

Date: August 13, 2024

RADIANT CASH MANAGEMENT SERVICES LIMITED (Formerly Radiant Cash Management Services Private Limited)

CIN: L74999TN2005PLC055748 Regd. Office: 28, Vijayaraghava Road, T.Nagar, Chennai - 600 017, Tamil Nadu. Phone: 91-44 - 4904 4904. E-mail: investorrelations@radiantcashlogistics.com Website: https://radiantcashservices.com/

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 05, 2024 at 03:00 p.m. (IST) in Compliance with the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India from time to time through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice of AGM. Pursuant to the aforesaid MCA and SEBI Circulars exemption has been granted from sending physical copies of notice of meeting and the annual report to the shareholders. Accordingly, the Company has sent the Notice of AGM along with Annual Report 2023 - 24 on Wednesday, August 14, 2024 through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants. A physical copy of the same shall be sent to those Members who specifically send a request at investorrelations@radiantcashlogistics.com mentioning their Folio No. / DP. ID. and Client ID.

Members may attend and participate in the AGM only through VC/OAVM facility provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL) as indicated in the notice. Hence the facility for appointment of proxies will not be available to the Members for attending the AGM. The Annual Report for the Financial Year 2023-24, including the Notice is available on the 'websites of the Company viz., www.radiantcashservices.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The same is also available on the websites of stock exchanges on which the securities of the Company are listed i.e.www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Remote e-Voting

Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013; (Act'), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations') and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its Members the facility to cast their vote through remote e-Voting in respect of the businesses to be transacted, as detailed in the Notice of

The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or through e-voting system at the AGM shall be Thursday, August 29, 2024 ("Cut - Off date"). Any person who acquires shares of the Company and become a member post-despatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Thursday, August 29, 2024, may obtain the login id and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or investorrelations@radiantcashlogistics.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting their vote.

The Voting rights of the Members would be in proportion to their share in paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date.

The Remote e-voting facility will be available during the following period: Commencement of remote e-voting | Monday, September 02, 2024 @ 09:00 am (IST)

Wednesday, September 04, 2024 @ 05:00 pm (IST) End of remote e-voting Members are requested to cast their vote through the web-link https:www.evoting.nsdl.com by using their User Id and Password during the above remote e-voting period. Members will not be able to avail remote e-voting facility beyond the end date and time mentioned above as the remote e-voting facility shall be disabled

for voting by NSDL. Further, the members who will be present in Annual General Meeting, who have not cast

their votes during the remote E-voting period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote

Mr S Sandeep (COP: 5987), Partner, M/s.S Sandeep Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting before /during the AGM in a fair and transparent manner. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-voting prior to the AGM can participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to vote on such resolution(s) again. In case of any query / grievance in relation to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available under Downloads section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President - NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager - NSDL at evoting@nsdl.co.in or call on Toll Free No(s): 022 - 48867000.

Place : Chennai

Date: 14.08.2024

By order of the Board

through the E-voting system during the AGM.

Record Date and Dividend: The Record Date has been fixed as Thursday, August 29, 2024 for determining the entitlement of dividend for the Financial Year ended March 31, 2024. The dividend if declared at the AGM, will be paid on or after Wednesday, September 18, 2024.

By order of the Board of Directors

Nithin Tom Company Secretary and Compliance Officer

BHANDARI HOSIERY EXPORTS LIMITED

(Punjab) (India) Ph. 88720-16410, FAX 0161-2690394 CIN: L17115PB1993PLC013930 E-mail: bhandari@bhandariexport.com; web: www.bhandariexport.com Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2024 Rs. In Lakhs

Particulars

Dated: 14.08.2024

Quarter

140.		30.06.2024 (Un-audited)	31.03.2024 (Audited)	30.05.2023 (Un-audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	5805.86	8911.75	5411.23	26705.58
2	Net Profit before tax for the period	190.71	264.01	167.87	873.53
3	Net Profit after tax for the period	142.71	163.83	143.84	653.35
4	Total comprehensive income for the period (comprising profit/loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	142.71	154.39	143.84	643.91
5	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹1/- each)	1634.38	1634.38	1465.27	1634.38
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year ended 31.03.2024	*	55	*1	8324.33
7	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Basic ; Diluted ;	0.09	0.09	0.10 0.10	8.40 8.42

reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on 14th August, 2024. These results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 as amended. 2. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE Limited and NSE Limited. For more details on Unaudited Financial Results, visit Company's Website i.e. www.bhandariexport.com. and financial results at corporate section at www.bseindia.com and www.nseindia.com. 3. The Group is engaged in the Single operating segment 'Textiles'. 4. The figures of previous periods have been reclassified and regrouped wherever necessary. 5. The company is coming up with a right issue of 76611591 equity shares of Rs.1/- each at a premium of Rs.5.26 per share. The Right Issue Committee at its meeting held on 12.06.2024 had fixed issue opening date i.e. 08.07.2024 and issue closing on 22.07.2024 and was further extended till 30.07.2024. 6. The Right Issue was subscribed 1.02 times and the Allotment was made on 03.08.2024. The Listing at BSE and NSE was completed on 06.08.2024 and trading approval was received on 08.08.2024 and trading started from 09.08.2024 onwards.

Note: 1. The above Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2024 have been

For Bhandari Hosiery Exports Limited

Chairman & Managing Director (DIN: 01385065)

NITIN BHANDARI

Place : Ludhiana

SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED

CIN: L74110MP2011PLC025807

Regd. Office: 203, 2nd Floor, N.M. Verge, 8/5 Yeshwant Niwas Road, Indore MP 452003 IN Website: www.shantioverseas.com; E-mail: mail@shantioverseas.com; Tel: +91-731-4020586, +91-731-4020587

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2024

(Rs in Lakhs) Year Ended Quarter Ended **Particulars** 30-06-2024 31-03-2024 30-06-2023 31-03-2024 Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) Total Income From Operation 122.04 730.98 1.142.95 Net Profit / (Loss) (before taxes and Extraordinary items) (65.89) (61,41 (205.31)Net Profit / (Loss) before taxes (after Extraordinary items) (65.89)(61.41)(41.24)(205.31)Net Profit / (Loss) after taxes (152.95)after Extraordinary items) (48.64)(42.06)Total Comprehensive Income for the period (comprising profit (loss) and other comprehensive income for the period after tax) (48.64)(8.95)(40.61) (152.87)Paid-up equity share capital (Face Value Rs.10/- each) 1,110.60 1,110.60 1,110.60 1,110.60 Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of 286.46 previous accounting year) Earnings per share (for discontinued & continuing operation) : (a) Basic (0.44) (0.08)(1.38)(0.38)(b) Diluted (0.44)(0.08)(0.38)(1.38)

NOTES: The Consolidated Financial Results for the Quarter ended on 30° June, 2024 have been prepared

policies to the extent applicable beginning 1st April, 2020 the Company has for the first time adopted Ind AS with the transition date of 1" April, 2019. Additional information on Standalone Financial Results are given below: (Rs in Lakhs) Year Ended Quarter Ended **Particulars** 30-06-2024 | 31-03-2024 | 30-06-2023 | 31-03-2024 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited)

in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and

Profit/Loss before tax (49.75) (43.12)(28.24)(126.94)Profit/Loss after tax (36.87) (10.93)(29.13)(94.94) The above results were reviewed by the audit committee at their meeting held on 13th August, 2024

and thereafter approved by Board of Directors at their meeting held on 13th August, 2024. The previous period figures have been regrouped/rearranged wherever found necessary. The above is an extract of the detailed format of Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2024 are

available on the website of the Company i.e. www.shantloverseas.com and on the website of NSE For & on behalf of the Board of Directors of

66.05

731.14

1.087.16

Place: Indore Date:- 13th August, 2024

Particulars

(www.nseindia.com).

Total Income from operations (net)

Shanti Overseas (India) Limited Ayush Kacholia Managing Director DIN:-03096933

DATA INFRASTRUCTURE TRUST

Principal place of Business: Unit 1, 9th Floor, Tower 4, Equinox Business Park. LBS Marg, Kurla (W), Mumbai 400070, Maharashtra, India. Phone: 022 69075212; Email: secretarial@summitdigitel.com; Website: www.datainfratrust.com (SEBI Registration Number: IN/InvIT/18-19/0009)

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER **ENDED JUNE 30, 2024** (Rs. in million, except per share data and ratios) Quarter ended Quarter ended Year ended

Particulars June 30, 2024 June 30, 2023 March 31, 2024 Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations 34,926 1,33,509 29,755 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 2,421 3,453 11,094 Exceptional and/or Extraordinary items) 2,421 3,453 11,094 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 2,428 3,444 11,192 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 10,632 Total Comprehensive Income for the period 2,315 3,281 [Comprising Profit / (Loss) (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) Unit Capital 2,61,017 2,61,152 2,61,017 (1,27,560)Reserves (Other Equity) (1,31,446)(94.003)Net Worth (refer note 6) 1,68,698 1,35,404 1,29,811 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 3,13,747 2,99,465 3,13,508 10 Outstanding Redeemable Preference Shares 162 159 (refer note 3) Debt Equity Ratio (times) 1.78 2.42 2:32 12 Earnings per unit 1.32 4.30 Basic (in Rupees) 0.93 Diluted (in Rupees) 0.93 1.32 4,30 Capital Redemption Reserve 4 Debenture Redemption Reserve 2.26 2.02 15 Debt Service Coverage Ratio 16 Interest Service Coverage Ratio 2.07

Directors of Data Link Investment Manager Private Limited (formerly known as BIP India Infra Projects Management Services Private Limited) ("Data Link/ "Investment Manager"), acting in its capacity as Investment Manager of Data Infrastructure Trust ("Data InvIT/ Trust"), at their meetings held on August 13, 2024. The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited consolidated financial

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

results filed with BSE Limited ("Stock Exchange") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly unaudited consolidated financial results are available on the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of the Trust at www.datainfratrust.com. Details of Outstanding Unlisted Redeemable Preference Shares (RPS).

No. of RPS | Par value | No. of RPS | Par value (Rs. in million) million) 5,00,00,000 500 5.00,00,000 0% Redeemable, Non-Participating, Non-Cumulative, Non-Convertible Preference Shares* *The Group had outstanding 50,000,000 Cumulative, Participating, Optionally Convertible Preference Shares of Rs. 10/- each aggregating to Rs. 500 million as on April 1, 2020. With effect

As at June 30, 2024 | As at March 31, 2024

from August 21, 2020, the terms of the Cumulative, Participating, Optionally Convertible Preference Shares of Rs. 10/- each were amended to Redeemable, Non-Participating, Non-Cumulative, Non-Convertible Preference Shares of Rs. 10/- each. The preference shares are mandatorily redeemable at par for an amount equal to the aggregate par value at the end of 20 years i.e. March 31, 2039 from the date of issuance. Accordingly, the Preference Shares have been classified as a liability and have been recognised at the present value of redemption amounting to Rs. 162 million as on June 30, 2024 (Rs. 159 million as on March 31, 2024).

For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and also on the website of the Trust i.e. www.datainfratrust.com.

These extract of Financial Results have been prepared in accordance with the requirement of

Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. read with such other circulars as may be applicable.

Net Worth: Total Equity excluding other comprehensive income.

For and on the behalf of the Board of Director of Data Link Investment Manager Private Limited

(formerly known as BIP India Infra Projects Management Services Private Limited) (acting in the capacity of Investment Manager of Data Infrastructure Trust)

Dhananjay Joshi Date: August 13, 2024 Managing Director Place: Mumbai (DIN: 09096270)

financialexp.epapr.in











हर घर तिरंगा

इंदौर। स्वतंत्रता दिवस निस्संदेह हमारे राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। देशभक्ति के जीवंत प्रदर्शन में सिका प्री-प्राइमरी स्कूल, स्किम नंबर 78 ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। शिक्षकों के साथ-साथ नन्हे-मुन्ने बच्चों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए इस रैली का नेतृत्व प्रिंसिपल सिका 78, डॉ. जी.एस. पटेल वाइस-प्रिंसिपल सिका 78, श्रीमती रजनी उप्रेती, प्रधानाध्यापिक सिका प्री-प्राइमरी, श्रीमती स्वाति जैन और उपप्रधानाध्यापिका प्री-पाइमरी श्रीमती आरती मिश्रा ने किया । हेदमिस्टेस्य श्रीमती स्वाति जैन ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य बच्चों मे देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाना है। श्रीमती आरती मिश्रा ने बच्चों को

ग्राम पंचायत आगरा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन



देपालपुर (इंदौर समाचार)। समीपस्थ ग्राम पंचायत आगर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस यात्रा में देशभक्ति का माहौल छाया रहा और ग्राम आगरा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर ग्राम पंचायत आगरा के सरपंच मनोज छाड़ियां, सचिव राजेश उपाध्याय और सहायक सचिव महेश छाड़ियां ने भी बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यात्रा के दौरान बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए और नारे लगाए, जिससे पूरे गांव में उत्पाद और उमंग का माद्रील बन गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना और स्वतंत्रत दिवस के महत्व को समझाना था।

पाठकनामा

हिंडनबर्ग का जिन्न पुनः बोतल से बाहर आ गया

हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का जिन्न पुनः बोतल से बाहर आ गया है। खुलासे से सियासत के गलियारों में गर्माहट आ गई है। पक्ष और विपक्ष की तलवारें म्यान से बाहर आ गई है । कांग्रेस ने जांच के लिए जेपीसी गठित करने और सुप्रीम कोर्ट से जांच सीबीआई से करने की मांग की है। सपा प्रमुख ने भी सेबी की जांच होनी चाहिए कहा है। वहीं भाजपा इन आरोपों का खंडन कर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह देश को कमजोर कर रही है । जब भी इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो भाजपा बचाव के मूड में रहती है । स्मरणीय है कि 2014 के पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार के मंत्रियों पर कोयला घोटाला, 2a, स्पेक्ट्रम घोटाला न जाने कितने आरोप लगे तो न केवल तत्कालीन स्पबद्धम बांटाला न जान कतन आवप लग ता न कत्वल तकालान मत्रियों को इस्तीफ देने पड़े बल्किट उनकी जांच भी कत्वाई गई।अब जब कोई भी आरोप लगता है तो सरकार के नुमाइदे आक्रामक सुङ् में आकर केवल आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, यह देश विरोधी बताकर नकार देते हैं। जबकि सरकार को दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए निष्पक्ष जांच कराने से कर्तई परहेज नहीं करना चाहिए । आज नहीं तो कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन दूध का धुला है। कहते भी है कि सांच को आंच नहीं, तो फिर डर किस बात का ! चाहे जेपीसी गठित कर जांच करने की मांग हो या सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई दारा जांच हो सरकार को दोनों प्रकार की जांच करवाने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए । क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा विपक्ष के किसी भी नेता पर आरोप लगाती है ईडी, आयकर एजेंसियां पहुंच जाती है । भले ही अदालत म आरोपी को सिद्ध करने हेत प्रमाण हो या ना हो । अतः केंद्र सरकार को हिंडनबर्ग के खुलासों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी व विश्वसनीय जांच करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए । इससे दुध का दूध पानी का पानी हो जाएगा । क्योंकि देश की जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर यह हिंडनबर्ग बार-बार क्यों अडानी को घेर रहा है ! किसी न किसी को तो बेनकाब होना है तो जांच से क्या घबराना ! जो सच्चाई है उसे सामने आने दो ।

हेमा हरि उपाध्याय (अक्षत) उज्जैन

नगर निगम की कार्रवाई से थे दुखी

वृद्ध ने की आत्महत्या

इंदौर(नगर संवाददाता)। पलासिया इलाके में रहने वाले एक वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि वे नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई से दखी थे। मरने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वे पलासिया इलाके की एक बिल्डिंग के नीचे दुकान चलाते थे। बुजुर्ग ने सुसाइड नोट में निगम अधिकारियों सहित बिल्डिंग के रहवासियों के नाम भी लिखे हैं। पुलिस ने को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक मृतक बुजुर्ग का नाम अनिल (69) पिता सुरेन्द्र यादव निवासी चंद्र लोक कॉलोनी है। वे बैंक से रिटायर्ड हुए थे और खुद को व्यस्त रखने के लिए दो साल पहले दुकान शुरू की थी। इस दुकान को मंगलवार को नगर निगम ने हटा दिया था। इससे वे दुन्खी थे।मंगलवार को घर जाकर



उन्होंने सुसाइड कर लिया। बेटे विऋम ने बताया कि उनकी बिल्डिंग के नीचे दूध पार्लर की दुकान थी। बिल्डिंग के कुछ लोगों ने उसे हटाने के लिए शिकायत की थी। पिता ने सुसाइड नोट में गोखले और महाशब्दे परिवार के नाम लिखे हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर पिता की दुकान हटाने को लेकर मैसेज चला रहे थे। वे पिता जी को आते-जाते

परेशान कर रहे थे। पलासिया पुलिस को सुबह एमवाय अस्पताल से अनिल की मौत की जानकारी लगी। यहां एएसआई पूरन सिंह सोलंकी को कारवाई के लिये भेजा गया। तब पूछताछ में सुसाइड नोट की जानकारी सामने आई। टीआई मनीष मिश्रा ने बाद में एसआई मालवीय को अनिल यादव के घर भेजकर

पिता घर पहंचे तो फंदे पर मिला बेटा

इंदौर(नगर संवाददाता)। पिता रात को ङ्यूटी से पहुंचे तो उनका बेटा फंदे पर लटका मिला, यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गईं। उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। वहीं एक बज महिला ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोनों ही मामलों में पलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पहले मामले में प्रथम बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक नागेंद्रसिंह के बेटे ने मंगलवार को सुसाइड कर लिया। मृतक का नाम ऋष गौतमसिंह (20 साल) निवासी सुरेंद्र नगर है। रात में पिता ङ्यूटी से घर पहुंचे तो उन्होंने बेटे को फंदे पर लटका देखा। उन्होंने तत्काल उसे नीचे उतार और एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक ऋषि गौतम सिंह (20) निवासी सुरेन्द्र नगर ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पिता ने बताया कि ऋषि कुछ गलत संगत में पड़ गया था। वह बाहर निकलना चाहता था। लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पडे थे। इस वजह से वह तनाव में था। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। इसी कार खजराना के देवकी नगर में रहने वाली 70 साल की झूमाबाई पति देवीसिंह ने अपने घर में फांसी लगाक जान दे दी। परिवार ने बताया कि मंगलवार दोपहर में पति पत्नी दोनों ने खाना खाया। इसके बाद पति देवीसिंह घर से निकल गए। करीब एक घंटे बाद लौटे तो पत्नी फंदे प लटकी थी। झूमाबाई के परिवार में उनका बेटा, बहू और पोते हैं। बताया जाता है कि घटना के समय सभी काम पर गए थे। झमाबाई का काफी समय से डिप्रेशन को लेकर

केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ में मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

हो सकता है। हम सब एक होकर समृध्दि की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। हिंसा व नफरत के जहर से इंसान को इंसान ने काट रहा है। हमारे बीच यदि कोई धर्म और जात को लेकर छल या प्रपंच करें, नफरत फैलाये तो हमें बहुकावे में नहीं आना चाहिए। भारत देश की अखंडता बनाए रखना है। हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। देशप्रेम से डबे यह शब्द पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ऋमांक 2 बीएसएफ में सुनने को मिले। जहां 14 अगस्त को %विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस% के रूप में मनाया जा रहा था। यहां बच्चों को भारत- पाकिस्तान के दर्द से रूबरू करने के लिए एग्जिबशन व नाटक का मंचन किया गया।

हर किसी की आंखें नम थी और विभाजन का दर्द उनकी आंखों से झलक रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्जलन से हुई। मख्य अतिथि आईसीएसटी सीबीएसएफ द्वारा

इंदौर(नगर संवाददाता)। गत ों राऊ इलाके में सेज

यनिवर्सिटी के होस्टल इंजार्च को

लूटने वाले बदमाशों को अखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों क्या कि

बनाया. आरोपी पकडाया

मनचलाबिल्डिंग में रहने

वाली छात्रा के चोरी छिपे वीडियो बना रहा था। छात्रा ने देखा तो युवक भागते दिखा।

बाद में उसे पकडकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। उसके

मोबाइल में छात्रा के फोटो

और वीडियो मिले हैं। पुलिस मनचले से पूछताछ कर रही है। लसूडिया पुलिस ने बताया

कि छात्रा की शिकायत पर

लोकेन्द्र को पकड़ा गया है।

उसके मोबाइल में छात्रा के

वीडियो-फोटो मिले हैं।

पुलिस के मुताबिक छात्रा ने

बताया कि वह महालक्ष्मी नगर की बिल्डिंग के फ्लैट में

अगस्त से किराये से रहने

गई थी। यहां 12 अगस्त की

दोपहर को उसके रूम से आवाज आ रही थी।

इंदौर।

होस्टल इंजार्च को लूटने वाले गिरफ्त में सीसीटीवी

फ्टेज से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज

खंगाले, तब जाकर उन तक पहुंच सकी। आरोपी कार में घूमने निकले थे। बायपास पर इंचार्ज को अकेले देखा तो चेन और बैग छीन कर भाग गए। पुलिस ने चैन और बैग जब्त कर लिया है। राऊ

इलाके में सेज यूनिवर्सिटी के होस्टल इंचार्ज श्याम शुक्ला को 7

अगस्त की सबह कार सवार बदमाशों ने लट लिया था। वह अपनी

कार से पुणे से इंदौर आ रहे थे। वे न्यूयॉर्क सिटी के यहां अंडर ब्रिज

के पास रुके। तभी सफेद रंग की कार से बदमाश आए और हथियार

की नोक पर सोने की चेन और बैंग लेकर भाग गए। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल की गई कार के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खजराना

के स्वर्ण बाग कॉलोनी में रहने वाले गौरव, अभिषेक, सदू, शादाब



फीता काटकर %विभाजन विभीषिका स्मति दिवस% की फोटो प्रदर्शनी एग्जिबिश शुरुआत की गई । इस मौके पर बच्चों ने कई शभिक्ति गीतों से समां बांधा। जिसे म्यूजिक टीचर निलांभ सर ने सिखाया। फिर बच्चों ने विभाजन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। प्रिंसिपल मनीष जैन ने कहा आज देश के बच्चें ये नहीं जानते कि आजादी हमें कितनी मश्किलों से मिली है। 14 अगस्त का दिन हम सभी के लिए बहुत दर्द भरा था। इसलिए इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में बच्चों को बताना जरूरी था। ताकि हम वह गलती दौबारा ना दौहराए। हमारा धर्म निरपेक्ष देश आज प्रगति कर रहा है। संचालन छात्र सक्षम जारवाल और काया पारखे ने किया। आभार वरिष्ठ शिक्षिका मोनिका जैन ने माना।

जबरदस्ती बैंक में घुसा, काम नहीं हुआ तो विवाद किया

इंदौर। बैंक में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों पुलिस केस दर्ज किया गया है। तीनों ने बैंक के गार्ड से कहासुनी की और वहां पदस्थ बैंककर्मी को जान से मारने की धमकी दी। चंदन नगर पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दीपक ने बताया कि नावदा पंथ में ग्राहक सेवा केन्द्र पर मंगलवार सुबह 10 बजे एक ग्राहक आया। उसने बताया कि रुपए ट्रांसफर करना है। भीड़ होने के चलते उससे कहा कि अभी काम नहीं हो पाएगा। शाम को आ जाना। इसके बाद वह दोपहर करीब ढाई बजे दो और लोगों को साथ लेकर आया। वे दोनों बैंक प्रभार राज्य बहु क्या जा जार रोगा या साथ रहत जाना यूना कर के बाहर खड़कर ग्राहक अंदर आने त्यागा गार्ड ने गृह तो कहर करते त्या। और जक्दरस्ती अंदर सुस गया बैंक में खड़े लोगों ने उसे बाहर कर दिया। बाहर निकलते ही वह गालियां देने लगा। उसके साथ आए दो अन्य लोगों ने जान से मार्न की धमकी दी। इससे परेशान होकर दीपक ने थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

Z6III, इंदौर में इमेजिंग तकनीक में ऋांतिकारी परिवर्तन लाएगा

इंदौर, निकॉन कॉरपोरेशन की शत प्रतिष सहायिका कंपनी, निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सयाजी होटल, इंदौर में भारत में अपने बहुप्रतीक्षित कैमरा Z6III को लॉन्च किया। निकॉन इंडिया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कला को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार किए गए अपने



फुल-फेम मिररलेस कैमरा पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। Z9 और Z8 मॉडल्स से RAW और N-log वीडियोज एवं EXPEED-7 प्रोसेसर जैसे फीचर्स को शामिल करते हुए यह नया कैमरा बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। Z6III को दुनिया के पहले पार्शियली-स्टैक्ड सीएमओएस सेंसर1 और सुपीरियर ऑटो फोकस क्षमता के साथ विकसित किया गया है, जिससे यह कैमरा अद्वितीय परफॉर्मेंस और आउटपरफॉर्म के लिए तैयार है। इस अवसर पर निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सज्जन कुमार ने कहा कि हम Z6III को लॉन्च करते हुए रोमांचित अनुभव कर रहे हैं। यह हाई-परफॉर्मेंस फुल फ्रेम मिड सेगमेंट कैमरा है, जिसमें लोकप्रिय Z8 और Z9 मॉडल्स की खबियों की विरासत को आगे बढाया गया है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर म.प्र.

न्योवात्य अनुविभागांव आधिकारा, महिहारंगिका क्षेत्र इन्दौर भी... (कोर्ट कम मं. 105 प्रशासनिक संकुल जिला कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर) क्रमांक/1417/प्रवाचक/2024 इन्दौर, दिनांक 07/08/2024 :: विद्वाचित :: एतट् द्वाय सुचित किया जाता है कि आवेदक मृंगाक रेसीडेंसी एवसों वेलकेस्य सोसायटी तर्फे श्री अध्यक्ष श्री सुभाव विद्वावले पता मृंगाक रेसीडेंसी एवसों वेलकेस्य संसायटी तर्फे श्री अध्यक्ष श्री सुभाव विद्वावले पता मृंगाक रेसीडेंसी एवसों हैं अध्यक्ष रेसीडेंसी एवसों वेलकेस्य सिटी अधींजिट अधींक्यों हैं स्थावन हैं रहें साथ के स्थावन करने हैं तु मध्यक्ष राम्प्रवेश क्ष्मांच्य आधींच्या 2000 को धारा 18 के तहत आवेदन परतृत किया है । अस्तुत आवेदन पत्र वेत किया है ।

प्रस्तुत आवदन पत्र के संबंध में जिस किसी मा संस्था व व्यक्ति को कोइ आपिता हो तो नियत पेशी दिनांक 28/08/2024 के पूर्व इस न्यायालय के समझ स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से मय प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है, बाद मियाद प्रस्तुत आपित पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक

शांति ओवरसीस (इण्डिया) लिमिटेड

सडक हादसे में महिला की मौत

इंटौर। इंटौर-ब्रातोट रोड पर सड़क ब्राटरने में एक महिला की मौत हो गई। वह

अपने पति के साथ बाइक से जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पूजा यादव (30)

निवासी सिकंदरी ग्राम को अजात वाहन ने टक्कर मार दी। वह अपने पति सचिन

यादव के साथ बाइक पर जा रही थी। इसी दौरान उनकी बाइक को वाहन ने टक्कर

मार दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सचिन ने बताया कि वह सामान लेकर लौट रहे थे। इस दौरान हादसे हो गया। सचिन के

मताबिक वह खेती किसानी करते हैं। उनके दो बेटे और एक बेटी है। पुलिस ने

CIN: L74110MP2011 PLC 025807

कार्यालय : 203, दूसरी मंजिल, एन.एम. वर्गे, 8/5 यक्षवंत निवास रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452003 आईए. वेबसाईट : www.shantioverseas.com ईमेल : <u>mail@shantioverseas.com</u>

फोन +91-731-4020586, +91-731-4020587 31 जुन, 2024 को समाप्त तिमाही अवधि के गैर अंकेषित समेकित वित्तीय परिणामों का साराज़

shulch	Idatul	ातमाहा स	ातमाहा समापन		
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		(गैर अंकेषित)	(अंकेधित)	(गैर अंकेषित)	(अंकेषित)
1.	संचालनों से कुल आय	272.17	122.04	730.98	1,142.95
2.	शुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं/अथवा असाधारण मरों पर कर से पूर्व)	(65.89)	(61.41)	(41.24)	(205.31)
3.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर पूर्व (असाधारण मदों के पश्चात)	(65.89)	(61.41)	(41.24)	(205.31)
4.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों के पश्चात)	(48.64)	(9.07)	(42.06)	(152.95)
5.	अवधि को कुल व्यापक आग (अवधि का सम्मिलित लाभ/(हानि) एवं अवधि की अन्य व्यापक आय कर पश्चात)	(48.64)	(8.95)	(40.61)	(152.87)
6.	पेड-अप इक्किटी शेयर पूंजी (ऑकत मुल्य प्रत्येक रुपए 10/-)	1,110.60	1,110.60	1,110.60	1,110.60
7.	रिजर्व (पूर्न: मूल्यकित रिजर्व को छोड़कर गत वर्ष की अंकेषित बैलेंस शीट के अनुसार)				286.46
8.	प्रतिशेवर आय (चालू एवं बंद संचालनों बाबद) (क) बेसिक	(0.44)	(0.08)	(0.38)	(1.38)
	(क) वासक (ख) डाईल्यूटेड	(0.44)	(0.08)	(0.38)	(1.38)

मोट: 1. 30 जून 2024 को समारत तिमाड़ी के समेकित वित्तीय परिषमा कंपनील (प्रीएउरन अकारोटिंग स्ट्रैण्डर्ड) शिवम, 2015 (आई एण्ड डी ए एस.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्धातित एवं अन्य लेखा पद्धतिर्थे व 1 अप्रैल 2020 से प्रभावशील नीतिर्थों में प्रदत मानरण्ड के अनुसार बनाये गये हैं। कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से पहली मर्तका आई एण्ड डी ए एस

क्रमांक	विवरण	तिमाही सम	तिमाशी समापन				
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024		
		(गैर-अंकेधित)	(अंकेषित) (र्ग	र-अंकेषित)	(अंकेषित)		
I	संचातमों से कृत आव (शुद्ध)	274.73	66.05	731.14	1,087.16		
II	लाभ/हानि कर पूर्व	(49.75)	(43.12)	(28.24)	(126.94)		
III	लाभ/हानि कर पश्चात	(36.87)	(10.93)	(29.13)	(94.94)		

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा समिति की 13 अगस्त, 2024 को सम्मन्न बैठक में की गई, तत्परचात व की बैठक में 13 अगस्त, 2024 को स्वीकृति प्रयान की गई।

. गत वर्षों के आंकड़े आवश्यकतानुसार यथा जगह री ग्रुप/ री अरेज किये गये हैं। उस्तेवत परिणम विवरण स्टीक एक्सचेंज में सेवी (लिस्टिंग आक्सीगेप्रांस एण्ड डिस्क्लोजर

सकता है, बार मियार अरतुत आवारा पर विचार की विचा जावना। आज दिना 07/08/2024 को में हस्ताक्षर एवं न्यायावनी परमूत से जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य) मल्हारगंज इन्दौर (म.प्र.)

न्यायालय - १५वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जिला न्यायालय इंदौर

Presiding Officer : नीरज कुमार ठाकुर करण क्रमांक-MJC SUC/178/2024 पेशी दिनांक 24.09.2024 ्यादा विरुद्ध- 1. सर्वसाधारण, 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया **-प्रतिवादी** प्रे**षिती**- सर्वसाधारण

विकल्द्ध- 1. सर्वमधारण, 2 स्टेट के ऑफ डॉडिया -प्रतिवादी प्रेषिक्द्ध- 1. सर्वमधारण, 2 स्टेट के ऑफ डॉडिया -प्रतिवादी प्रेषिक्त- सर्वमधारण वह कि प्रार्थी सुमित खेड़े ने आपके विकट्ध अंतर्गत थरा 372 भारतीय अत्याधिकार विचान के अंतर्गत गुरूक के उत्याधिकारी घोषित किये जाने हेतु बदर सर्विमत किया जाने आपको इस न्यायाव्यक से स्पना के प्रकाशन के 30 विवस के भीतर बाद का उत्तर देने के लिये उपसम्जन किया जाता है, आप न्यायाव्य में पंत्री दिवस 2-40.9.2024 को क्टर्या विकास प्रेण्डी के आप के इसा वात्र में विक्र सित्त कर 2-40.9.2024 को क्टर्या विकास प्रविचित के आप वाह है अप न्यायाव्य में भीत्र विकास प्रवत्त कर वाह वाह तिया प्रविचित करन प्रतृत और अपनि की स्थापन किया जाता है, आप न्यायाव्य के अत्याधिक कर प्रतृत भी विवास जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिवक्त करन प्रतृत के और उस दिन अपनी प्रतिवक्त करन प्रतृत के और उस दिन अपनी प्रतिवक्त करने प्रतृति के अत्याधिक के अत्याधिक के उस विकास करने किया विकास करने किया विवास करने किया विकास करने किया विकास करने किया विकास करने किया विवास करने किया विकास करने किया विकास करने किया विकास करने किया विवास करने किया विकास करने किया विक

और एक अन्य को पकड़ा है। आरोपियों ने लूट करना कबूल किय है। इनमें से एक आरोपी पहले भी लुट के केस में शामिल रह चुका सभी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। राजा का चोरी रिपे वीडियो CHANGE OF NAME

BASANT LAL PANCHAL S/0
LAXMINARAYAN PANCHAL
HAVE CHANGED MY NAME AS
BASANT PANCHAL. NOW I
WILL BE KNOWN BY MY NEW
NAME AS BASANT PANCHAL
S/O LAXMINARAYAN
PANCHAL

ADDRESS- 35-B. SHRI RAM NEAR BANGALI, NAKA, INDORE-452016, MP. INDIA



इंदौर में रखी गई है । शीकाकुल : गेहानी परिवार पुज्य सिन्धी साहिती पंचायत, इ

ढालूमल गेहानी जी की धर्मपत्नी, योगेश गेहानी

रस्म-उठावना (महिला-पुरुष) १५/०८/२४, बुधवार शाम ५ से ५:३० बजे तक स्वामी